



वन उत्पादकता संस्थान, रांची
दिनांक 18.12.2019 से 24.12.2019
पुतसूरी(पश्चिम बंगाल) में आयोजित कृषि,
स्वास्थ्य व सार्विक मेला सहभागिता प्रदर्शनी



निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान, रांची के त्वरित निर्देशन एवं समुह समन्वयक अनुसंधान के सफल मार्गदर्शन में दिनांक 18.12.2019 से 24.12.2019 तक पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी संस्था द्वारा बर्द्धमान जिले के पुतसूरी में आयोजित “कृषि स्वास्थ्य व सार्विक शिक्षा-सचेतन मेला 2019” में संस्थान के एक दल द्वारा स्टाल लगाकर संस्थान के अनुसंधान कार्य एवं उत्पाद को प्रदर्शित किया गया । मेले में संस्थान के द्वारा 22.12.2019 से 24.12.2019 तक स्टाल में पोस्टर, बैनर, ब्रुकलेट, संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शनी लगाया गये । मेले में विभिन्न स्टालों के अपेक्षा संस्थान का स्टाल आकर्षण का केंद्र रहा जहां मेले में आए लोगों ने बांस के विभिन्न प्रजाति, बांस के उत्पाद एवं लाह उत्पाद के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया । स्टाल का स्थानीय विधायक के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अवलोकन किया एवं उसकी सराहना की । संस्थान के अनुसंधान कार्य को श्री रविशंकर प्रसाद, मु.त.अ., श्री निसार आलम मु.त.अ. एवं श्री सुशीत बनर्जी, व.त.स. ने बड़ी सरल एवं ग्राह्य मिश्रित भाषा में लोगों को समझाया ।

बांस एवं लाह के पाठ्यपुस्तक के प्रति लोग काफी आकर्षित दिखे एवं इसके बंगला भाषा में अनुवादित प्रति की मांग की । लगभग 219 लोगों ने स्टाल का अवलोकन किया ।

अंतिम सत्र दिनांक 24.12.2019 को समापन समारोह में संस्थान के श्री रविशंकर प्रसाद एवं श्री निसार आलम ने मंच से, उपस्थित जन समूह को संस्थान के कार्य क्षेत्र, अनुसंधान कार्य में संस्थान का योगदान एवं संकल्पों को विस्तार से रखा ।

कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के श्री रविशंकर प्रसाद, मु.त.अ., श्री निसार आलम मु.त.अ. एवं श्री सुशीत बनर्जी, व.त.स. ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।



